


निमोनिया को बढ़ने न दें
तुरंत प्रशिक्षित डॉक्टर से इलाज करवाएँ।




सुस्त रहना,
न खाना न पीना,
झटका मारना



धँसी हुई छाती



खाँसी के साथ
तेज साँसें



खाँसी



जीतेंगे हम, हारेगा निमोनिया।

